

**-:प्रेस नोट दिनांक 12.05.2021:-  
थाना कोतवाली जनपद बरेली ।**

**थाना कोतवाली #bareillypolice द्वारा निर्धारित किराये से पांच गुना अधिक किराया वसूलने पर निजी एम्बुलेंस चालक, मालिक व आईसीयू टैक्नीशियन को किया गया गिरफ्तार ।**

थाना कोतवाली बरेली पर दिनांक 12.05.2021 को वादी जयनेन्द्र सिंह पुत्र श्री जयराज सिंह निवासी मकान न0 83 जाटवपुरा थाना प्रेमनगर जनपद बरेली के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 150/2021 धारा 420 भादवि व 27 महामारी अधिनियम बनाम एम्बुसेन्स न0- यू0पी0 76-के-8509 के चालक के द्वारा वादी के पिताजी की तवियत खराब होने के कारण एम्बुलेन्स में रूहेलखण्ड अस्पताल से सिद्धी विनायक अस्पताल से विनायक अस्पताल से राज्यश्री से मिशन अस्पताल तक ले जाने के लिये धोखाधड़ी कर कोविड-19 के संक्रमण के सम्बंध में जारी आदेशो निर्देशो का उल्लंघन करके 15000 रूपये ले लेने के सम्बन्ध पंजीकृत कराया था।

उपरोक्त के क्रम में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के कुशल नेतृत्व में निरीक्षक अपराध शाहिद अली के द्वारा सघन अभियान चैकिंग एवं मुखविर मामूर कर अभियुक्तगण 1. चन्द्रशेखर उर्फ टीटू पुत्र यतेन्द्र कुमार नि0 रोड न0 7 सिद्धार्थ नगर थाना इज्जतनगर बरेली (एम्बुलेन्स मालिक) 2. मन्नू कुलश्रेष्ठ पुत्र उमासरन कुलश्रेष्ठ नि0 निकट सैनफ्रांसिस स्कूल संजयनगर थाना बारादरी जिला बरेली (एम्बुलेन्स ड्राइवर) 3. जावेद पुत्र अनबर नि0 जगतपुर पनवडिया थाना बारादरी जिला बरेली (टेक्नीशियन) को गिरफ्तार किया गया । तीनों अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय बरेली पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. चन्द्रशेखर उर्फ टीटू पुत्र यतेन्द्र कुमार नि0 रोड न0 7 सिद्धार्थ नगर थाना इज्जतनगर बरेली ।
2. मन्नू कुलश्रेष्ठ पुत्र उमासरन कुलश्रेष्ठ नि0 निकट सैनफ्रांसिस स्कूल संजयनगर थाना बारादरी जिला बरेली ।
3. जावेद पुत्र अनबर नि0 जगतपुर पनवडिया थाना बारादरी जिला बरेली ।

**आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 150/2021 धारा 420भादवि व 27 महामारी अधि0

**बरामदगी:-**

1. एक एम्बुलेंस न0 UP76K8509 (धारा 207 एमबी एक्ट में सीज)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. निरीक्षक अपराध श्री शाहिद अली थाना कोतवाली बरेली
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बरेली
3. का0 845 संजीव कुमार थाना कोतवाली बरेली

**प्रभारी निरीक्षक कोतवाली  
जनपद बरेली ।**